

AI - 1173
(005) B.Sc. Part-II (Two)
Examination MAR-APR. 2021
Compulsory /Optional
Group
Paper -

Paper Title: COMPUTER SCIENCE

Time:- Three Hours]

Maximum Marks : 50
Minimum Passing Marks:

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Answer all the questions. All the questions carry equal marks.

UNIT-I/ इकाई-1

- Q.1 What is HTML? Explain web site development and design?
एच.टी.एम.एल. क्या है? वेबसाइट के विकास और डिजाइन की व्याख्या करें।

OR/ अथवा

What is XHTML? Write feature's and uses of CSS?
एक्स.एच.टी.एम.एल. क्या है? सी.एस.एस. की सुविधाओं और उपयोगों को लिखें।

UNIT-II/ इकाई-2

- Q.2 Describe IT Application and web pages links?
वेब पेजेस लिंक्स और आई.टी. के अनुप्रयोगों को समझाइए।

OR/ अथवा

Explain design frames in HTML and its advantages?
एच.टी.एम.एल. डिजाइन फ्रेम और फायदे की व्याख्या कीजिए।

UNIT-III/ इकाई-3

- Q.3 Write the feature's and advantages of C++.
C++ के फीचर्स और फायदे लिखिए?

OR/ अथवा

Describe object oriented language and its applications?
ऑब्जेक्ट ओरियेन्टेड भाषा और उसके अनुप्रयोगों के वर्णन करें।

UNIT-IV/ इकाई-4

- Q.4 Explain inheritance and its types?
इन्हेरिटेस और उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए।

OR/ अथवा

Write the difference between operator overloading and function overloading with example?
उदाहरण के साथ ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग के बीच अंतर लिखिए?

UNIT-V/ इकाई-5

- Q.5 Explain pointer and array with appropriate example ?
उपर्युक्त उदाहरण के साथ पॉइंटर और ऐरे को समझाइए।

OR/ अथवा

Describe virtual function with suitable example.
उपर्युक्त उदाहरण के साथ आभासी फंक्शन का वर्णन करें।